

Sub: Newspaper advertisement for transfer of unclaimed dividend and corresponding equity shares to Investor Education and Protection Fund.

Please find enclosed the copies of the Notice published in the newspapers on 13.08.2019 in respect of transfer of unclaimed dividend and corresponding equity shares to Investor Education and Protection Fund in 'Business Standard', 'Indian Express' & 'Financial Express', all India edition in English language and in 'Jansatta' and 'Business Standard' in Hindi language.

This is for your information and record please.



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD



भारतीय
CONCOR

(A Govt. of India Navratna Undertaking)

Corporate Identity Number (CIN): L83011DL1988GOI036915

Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi - 110 076

Phone: 91-11-41673093/94/95/96. Fax: 91-11-41673112

Investorrelations@concorindia.com; www.concorindia.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS TRANSFER OF
EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR
EDUCATION AND PROTECTION FUND**

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time the Final dividend declared for the financial year 2011-12, which remained unclaimed for a period of seven years will be due to be credited to the IEPF on 24.10.2019. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996. In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link www.concorindia.com to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred.

Shareholders are requested to claim the final dividend declared for the financial year 2011-12 and onwards before the same is transferred to the IEPF. Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF Authority.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 24.10.2019, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, will transfer the dividend to the IEPF by the due date i.e. 23.11.2019. The corresponding shares, on which dividend is unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

Any shareholder(s)/person(s) who has/have any claim(s)/queries in respect of such shares or dividend or for any clarification on the above matter, may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062 Ph.: 011-29961281/82/83; Fax No.: 011-29961284; email: beetalrta@gmail.com.

Place: New Delhi

Date: 12th August, 2019

For Container Corporation of India Ltd.

Sd/-
Executive Director (Finance) & CS



भारतीय
CONCOR

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

एक भारत कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)



Corporate Identity Number (CIN): L63011DL1988GOI030915

Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi - 100 076

Phone: 91-11-41673093/94/95/96; Fax: 91-11-41673112

investorrelations@concorindia.com; www.concorindia.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Shareholders are hereby Informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting , Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time the Final dividend declared for the financial year 2011-12, which remained unclaimed for a period of seven years will be due to be credited to the IEPF on 24.10.2019. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/ tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/ pledged under the Depositories Act, 1996. In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link www.concorindia.com to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred.

Shareholders are requested to claim the final dividend declared for the financial year 2011-12 and onwards before the same is transferred to the IEPF. Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such Issue, the Company shall Inform the depository by way or corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF Authority.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 24.10.2019, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, will transfer the dividend to the IEPF by the due date i.e. 23.11.2019. The corresponding shares, on which dividend is unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

Any shareholder(s)/person(s) who has/have any claim(s)/ queries in respect of such shares or dividend or for any clarification on the above matter, may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062 Ph.: 011-29961281/82/83; Fax No.: 011-29961284; email: beetalrta@gmail.com.

Place: New Delhi

Date: 12th August, 2019

For Container Corporation of India Ltd.

Sd/-
Executive Director (Finance) & CS



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.



भारतीय
CONCOR

एक नवरात्रि कंपनी (भारत सरकार का उद्योग)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)

Corporate Identity Number (CIN): L63011DL1988GOI030915
Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi – 100 076
Phone: 91-11-41673093/94/95/96; Fax: 91-11-41673112
investorrelations@concorindia.com; www.concorindia.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS TRANSFER OF
EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR
EDUCATION AND PROTECTION FUND**

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time the Final dividend declared for the financial year 2011-12, which remained unclaimed for a period of seven years will be due to be credited to the IEPF on 24.10.2019. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/ tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/ pledged under the Depositories Act, 1996. In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link www.concorindia.com to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred.

Shareholders are requested to claim the final dividend declared for the financial year 2011-12 and onwards before the same is transferred to the IEPF. Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF Authority.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 24.10.2019, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, will transfer the dividend to the IEPF by the due date i.e. 23.11.2019. The corresponding shares, on which dividend is unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

Any shareholder(s)/person(s) who has/have any claim(s)/ queries in respect of such shares or dividend or for any clarification on the above matter, may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi-110062 Ph.: 011-29961281/82/83; Fax No.: 011-29961284; email: beetalrta@gmail.com.

For Container Corporation of India Ltd.

Place: New Delhi
Date: 12th August, 2019

Sd/-
Executive Director (Finance) & CS

शेयरधारकों के लिए सूचना निवेशक शिक्षा एवं

संरक्षा निधि में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अंतिम लाभांश, जो कि सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत हैं, उसे 24.10.2019 को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों के लिए लाभांश अदावाकृत हैं, उसे भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा। कम्पनी उन शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जिन पर न्यायालय/अधिकरण के विशेष आदेशों के अनुसार ऐसे शेयरों के किसी भी अंतरण पर रोक लगी है या जहां शेयर डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अंतर्गत रेहन/बंधक रखे गये हैं। नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। संबंधित शेयरधारक अपने अप्रदत्त लाभांश और अंतरित किये जाने वाले शेयरों के ब्यौरे के सत्यापन के लिए वेब लिंक www.concorindia.com को भी देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 और उससे आगे के लिए घोषित अंतिम लाभांश का दावा इसे आईईपीएफ को अंतरित किये जाने से पूर्व कर लें।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी आईईपीएफ को शेयर अंतरण करने के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयरों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करेगी और ऐसे शेयर जारी होने पर, कम्पनी डिपॉजिटरी को सूचित करके या डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ को अंतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही करेगी। मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और यह अविनिमेय माने जाएंगे। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक कृपया नोट करें कि कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में शेयर के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

आगे शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये विवरण को उचित माना जाएगा और यह आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से 24.10.2019 तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी नियमों में आवश्यकताओं के अनुपालन में देय तिथि अर्थात् 23.11.2019 तक लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित कर देगी। संगत शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों से लाभांश अदावाकृत हैं, उन्हें भी आगे बिना कोई सूचना दिये अंतरित कर दिया जाएगा।

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश एवं शेयरों के संबंध में कम्पनी के पास कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित संगत लाभांश और शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

शेयरधारकों/व्यक्तियों से अनुरोध है कि ऐसे शेयरों या लाभांश के संबंध में या उपरोक्त विषय में किसी भी दावे/पूछताछ के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062, फोन: 011-29961281/82/83; फैक्स: 011-29961284, ई-मेल: beetalra@gmail.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12 अगस्त, 2019

कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड,
हस्ता./-
कार्यकारी निदेशक (वित्त) एवं सीएस



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.



कॉर्पोरेट
CONCOR

एक नवराज कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)

Corporate Identity Number (CIN): L63011DL1988GOI030915
Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi - 100 076
Phone: 91-11-41673093/94/95/96; Fax: 91-11-41673112
investorrelations@concorindia.com; www.concorindia.com

शेयरधारकों के लिए सूचना निवेशक शिक्षा एवं

संरक्षा निधि में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण
शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अंतिम लाभांश, जो कि सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत हैं, उसे 24.10.2019 को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों के लिए लाभांश अदावाकृत हैं, उसे भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा। कम्पनी उन शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जिन पर न्यायालय/अधिकरण के विशेष आदेशों के अनुसार ऐसे शेयरों के किसी भी अंतरण पर रोक लगी है या जहां शेयर डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अंतर्गत रहन/बंधक रखे गये हैं। नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। संबंधित शेयरधारक अपने अप्रदत्त लाभांश और अंतरित किये जाने वाले शेयरों के ब्योरे के सत्यापन के लिए वेब लिंक www.concorindia.com को भी देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 और उससे आगे के लिए घोषित अंतिम लाभांश का दावा इसे आईईपीएफ को अंतरित किये जाने से पूर्व कर लें। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी आईईपीएफ को शेयर अंतरण करने के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयरों के बदले ड्रुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्री) जारी करेगी और ऐसे शेयर जारी होने पर, कम्पनी डिपॉजिटरी को सूचित करके या ड्रुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ को अंतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही करेगी। मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और यह अविनिमेय माने जाएंगे। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारक कृपया नोट करें कि कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में शेयर के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

आगे शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये विवरण को उचित माना जाएगा और यह आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा ड्रुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से 24.10.2019 तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी नियमों में आवश्यकताओं के अनुपालन में देय तिथि अर्थात् 23.11.2019 तक लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित कर देगी। संगत शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों से लाभांश अदावाकृत हैं, उन्हें भी आगे बिना कोई सूचना दिये अंतरित कर दिया जाएगा।

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश एवं शेयरों के संबंध में कम्पनी के पास कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित संगत लाभांश और शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

शेयरधारकों/व्यक्तियों से अनुरोध है कि ऐसे शेयरों या लाभांश के संबंध में या उपरोक्त विषय में किसी भी दावे/पूछताछ के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगौर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062, फोन: 011-29961281/82/83; फ़ैक्स: 011-29961284, ई-मेल: beetalrta@gmail.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12 अगस्त, 2019

कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड,
हस्ता./—
कार्यकारी निदेशक (वित्त) एवं सीएस